

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जुलाई 2024—आषाढ़ 10, शक 1946

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2024

क्र. एफ 3-10-2011-68.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभागाध्यक्ष, कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन भोपाल को वर्तमान में पदस्थ अपले सहित उज्जैन में स्थानांतरित किया जाता है।

2. विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सतपुड़ा भवन भोपाल को उज्जैन में स्थित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण, उज्जैन के भवन में संचालित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाति जैन, उपसचिव।